

Class – VII

SUBJECT	STUDY MATERIALS
English – I	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Write essays on the following topics: - <ul style="list-style-type: none"> • If I could make myself invisible for a day • Music effects of human body ➤ Write a letter to your friend explaining the importance of participating in co-curricular activities in school ➤ Write a letter to the principal of your school requesting him to organize a test for scholarship for your class. ➤ Make a table of tenses with example.
English – II	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Read the following chapters, underline the difficult words and find their meanings: - <ul style="list-style-type: none"> • Govinda’s Disciple • The selfish giant • Bravo Manju ➤ Learn the word meanings given in the chapters mentioned above. ➤ Do one page cursive writing daily.
History	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lesson – 1 (Rise of Christianity) ➤ Write about the birth of Jesus and his early life in Nazareth. ➤ Explain the main teachings of Jesus and how you can imbibe and apply these teachings in your daily life.
Civics	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lesson – 1 (The Constitution of India) ➤ Write about the key features of our constitution (The preamble, nature of state, objective of the constitution) ➤ Give a list of the members of the constituent assembly (do the project work in copy of file)
Mathematics	Practice the exercises of the mentioned chapters : <ol style="list-style-type: none"> 1) Integers 2) Fractions and decimals
Chemistry	<ol style="list-style-type: none"> 1) Learn symbols of the element and write five times. 2) Read and write the features of different states of matter. 3) Observe the characteristics of matter in your house and write it.
Biology	<ol style="list-style-type: none"> 1) Read the lesson TISSUE 2) Write the definition and types of tissues in the copy 3) Draw the diagram related to it. 4) Read and learn the classification of animals along with characteristics of phylum with examples.
Computer Science	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Design a Web page of your school which displays the following information. <ol style="list-style-type: none"> 1) Name of the school 2) Location of the School 3) Principal’s name 4) Vice Principal’s Name 5) Affiliation (i.e. CBSE/ICSE) 6) No. of staff members 7) No. of students <p>Also apply background colour and text colour.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Design web page for your friend’s birthday. Display pictures and birthday message.
Hindi	<ol style="list-style-type: none"> 1) विलोम शब्द लिखिए और याद कीजिए। 2) पर्यायवाची शब्द लिखिए और याद कीजिए। 3) निबंध लिखिए और याद कीजिए। <ul style="list-style-type: none"> • गंगा प्रदूषण • गणतंत्र दिवस 4) औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखिए और याद कीजिए।

	<ul style="list-style-type: none"> • औपचारिक (चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रधानाचार्य को पत्र) • अनौपचारिक (जन्मदिन पर आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र) <p>कथा कलश –</p> <p>5) निम्नलिखित दो कहानियों को पढ़कर उनका सारांश और उससे मिलने वाली शिक्षा भी लिखिए।</p>
Geography	<p>Project Work :</p> <p>Lesson 1 : Topographical Sheets: colours, signs and symbols Draw symbols used on topographical maps given on pages 11,12 and 13 in a thin notebook. Please use appropriate pencil colours to draw them.</p> <p>Lesson 2: Scale and Distance</p> <p>Lesson 3 : Composition and Structure of the Atmosphere. Draw a diagram to show composition of the Atmosphere given on page 22.</p> <p>Lesson 4 : Greenhouse effect and global warming</p> <p>Lesson 5: Study of Weather</p> <p>Lesson 6 : Recording of Weather. Draw a diagram to show a rain gauge as shown on page 47.</p> <p>Lesson 7 : Europe : location, area, political and physical features</p> <p>Lesson 8 : Antarctica : location , physical features, climate, natural vegetation, wildlife and minerals.</p> <p>Write answers for all the questions given at the end of the above said lessons (exercises) except answer the questions in brief and detail in the same thin notebook.</p>